FINANCIAL EXPRESS

SW Steel Limi

to ing

rify

Regd. Office: JSW Centre. Bandra-Kurk : 022-4286 1000 Fax: 022-4286 3000 En

NOTICE OF LOSS OF SHARE O

Notice is hereby given that the Share Certificates in respection have been reported to be lost/misplaced and the Shareh be duplicate Share Certificates in lieu thereof. ich

	E E E E E E			
-	Folio No	Name/Joint Names	Certificate	3 or
			No(s)	It of
	JSW0308497	SHEELA MARWAH (Deceased) DEEPAK MARWAH (Claimant)	2449862	aies,
	JSW0725010	K L SARASAMMA S SURESH CHATTERJI	2658379	ers
	JSW0815258	HARUN GIGANI	2689679	Fore
	JSW0403839	RAPHEAL ANTONY P	2597437	2
	JSW0713408	ANJALI JAIN	2437977	ers
	JSW0718944	TARUN P. SHAH	2568014	ries

Any person who has a claim on the above Share Certificas Or Company at its Registered office within 15 days, failing whents vise issue duplicate certificates. it in

: 11-09-2023 Date



(This is on

SAROJA P

Our Company was originally incorporated as " Incorporation issued by the Registrar of Compan Pharma Industries India Limited" and fresh Certi Number of our Company is U24110MH2019PL0

Registered office: 305, I Corporate Office: Shop

website: ww

RESS

PRECISION ELECTRONICS LIMITED

CIN NO.: L32104DL1979PLC009590

Registered Office: D-1081, New Friends Colony, New Delhi - 110025

Email: cs@pel-india.in, Website: www.pel-india.in,
Phone: 120 2551556/7, Fax: 120 2524337

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF 44TH ANNUAL GENERAL MEETING

The Corrigendum is being issued in continuation of the Notice dated 11th August 2023 for the Annual General Meeting (AGM) of the company which is to be held on Monday, September 25, 2023, at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM").

The Shareholders of Precision Electronics Limited are requested to take note of the corrections as appearing hereunder with respect to the closing time of the remote e-voting period available for the remote e-voting facility in the instructions for members for remote e-voting and joining general meeting

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING AND JOINING GENERAL MEETING ARE AS UNDER:

The remote e-voting period begins on September 19, 2023 (Tuesday) at 09:00 AM and The remote e-voting period begins on September 19, 2023 (Tuesday) at 05:00 AM all ends on September 25, 2023 (Monday) at 05:00 PM. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. September 19, 2023 may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being September 19, 2023.

To:

The remote e-voting period begins on September 19, 2023 (Tuesday) at 9:00 AM and ends on September 24, 2023 (Sunday) at 5:00 PM. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e., September 19, 2023 may const this invite sleafernically. The writing right of sharehylder. September 19, 2023 may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being September 19, 2023.

This Corrigendum to the Notice of the AGM shall form an integral part of the Notice of AGM which has already been circulated to shareholders of Company and on from the date hereof, the Notice of the AGM shall always be read in conjunction with this

This Corrigendum is also being published in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) and is also available on website of the Company Link: https://pel-india.in/useful-investor-data/. All other contents of the Notice of AGM save and except as modified or supplemented by the Corrigendum, shall remain unchanged.

By the order of the Board For Precision Electronics Limited Sd/-

Place: Noida Date: 11th September 2023

Vrinda Mohan Gupta Company Secretary cum Compliance Officer



REGD OFFICE: SURVEY NO-257, PLOT NO. 23 TO 28, N.H. NO. 8-B, SHAPAR - VERAVAL, DIST: RAJKOT – 360002, PHONE: +91 - 2827 - 252411, EMAIL:account@captainpipes.in, WEBSITE: www.captainpipes.com CIN NO.: L25191GJ2010PLC059094

PROMOTER'S OF OUR CO THE SHAREHOLDERS REGARDING ANNUAL GENERAL MEETING

The issue is being made in accordance wi

Details of Applications: The issue has received 5,023 tring / updating email addresses:

filed but not banked) are as follows:

be listed on SME platform of "NSE (NSE Eleenth) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Other Audio Visuals Means ("OAVM") on Saturday, 30" September, 2023at 12:00 P.M. th all the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI PUBLIC ISSUE OF UPTO 10,84,800 EQUITY SHARES and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. PRICE OF ₹ 84/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A Syril, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH_{May}, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER CA Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 Dated 12th May, EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 Dated 15th January, 2021 issued by Securities REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND of India ("SEBI circular") (collectively referred to as 'relevant circulars') to transact the In terms of the prospectus dated 25th August, 2023 and the notice calling 14TH AGM. Members will be able to attend the meeting through VC or provided that the unsubscribed portion in either of categ ticipating through VC or OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under

Explanation: If the retail individual investor category is a mpanies Act, 2013.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/-VALUE. THE SULE WAS OPENED ON THURSDAY, 315 Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the sa amended from time to time, our company has received www.captainpipes.com and on the website of stock exchange where the shares of the for the purpose of this leave. The Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the website of stock exchange where the shares of the for the purpose of this leave. The Depository Participants are proposed to the shares of the sh For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exch e. www.bseindia.com. Members can attend and participate for joining the AGM are of AGM. Further, Members who do not register their email addresses with the RTA/ ts will not be able to participate in the meeting.

filed but not banked) for 92,06,400 Equity Shares (includes are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned The details of the valid applications received in the is ficate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-

y of Aadhar Card) by email to (compliance@captainpipes.com).

सीआईएन नं: L32104DL1979PLC009590 पंजीकृत कार्यालयः डी-1081, न्यू फ्रॅंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110025 ईमेल: cs@pel-india.in, वेबसाइट: www.pel-india-in, फोन: 120 2551556/7, फैक्स: 120 2524337

44वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए दिनांक 11 अगस्त 2023 के नोटिस की निरंतरता में जारी किया जा रहा है, उक्त वार्षिक आम बैठक सोमवार, 25 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओएवीएम")के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे रिमोट ई-वोटिंग और आम बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के निर्देशों में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के समापन समय के संबंध में नीचे दिए गए सुधारों पर ध्यान दें।

रिमोट ई-वोटिंग और आम बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

पहले :

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 19 सितंबर, 2023 (मंगलवार) को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और 25 सितंबर, 2023 (सोमवार) को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 19 सितंबर, 2023 को सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि, 19 सितंबर, 2023 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा अब :

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 19 सितंबर, 2023 (मंगलवार) को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी है और 24 सितंबर, 2023 (रविवार) को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 19 सितंबर, 2023 को सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट खाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि, 19 सितंबर, 2023 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। एजीएम के नोटिस का यह शुद्धिपत्र एजीएम के नोटिस का एक अभिन्न अंग होगा जिसे कंपनी के शेयरधारकों को पहले ही प्रसारित किया जा चुका है और इसकी तारीख से, एजीएम का नोटिस हमेशा इस शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाएगा।

यह शुद्धिपत्र फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) में भी प्रकाशित किया जा रहा है तथा कंपनी की वेबसाइट लिंकः https://pel-india.in/useful-investor-data/ पर भी उपलब्ध है। शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित या पूरक को छोड़कर एजीएम की सूचना की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहेंगी।

> बोर्ड के आदेशानुसार कृते प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

西/-

वृंदा मोहन गुप्ता कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

HDFC BANK We understand your world

स्थान : नोएडा

दिनांक: 11 सितम्बर, 2023

पंजीकृत कार्यालयः एचडीएफसी बँक हाउस, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट) मुम्बई-400013 और जिसका एक कार्यालय है: रिटेल पोर्टफोलिओ प्रबंध, एचंडीएफसी बैंक लि., 1 तल,

I-थिंक टेक्नो कैम्पस, कंजूरमार्ग (ईस्ट), मुम्बई-400042

एचडीएफसी बैंक लि. के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की विक्री के लिये विक्री सूचना तथा सार्वजनिक सूचना एचडीएफसी बैंक लि. ("बैंक") के नीचे वर्णित ऋणधारकों को एतदद्वारा प्रतिमूतियों के लिये उनके द्वारा प्राप्त की गई ऋण/ओवरङ्गापट के रूप में साख सुविधाओं के तिये बैंक के पास गिरवी रखी गई प्रतिमूतियों की बिक्री के संदर्भ में यह सूचना दी जा रही है।

बकाया देयताओं का युगतान करने में ऋणधारकों द्वारा लगातार की गई चूक के कारण ऋण की स्वीकृत शर्तों के अनुसार नीचे वर्णित ऋण खाताएं बकाये की स्थिति में हैं। बैंक ने नीचे वर्णित इन ऋणधारकों को विविध सूचनाएं जारी की तथा नीचे वर्णित तिथि को अंतिम बिक्री सूचना जारी कर गिरवी को निरस्त कर दिया तथा नीचे वर्णित खाताओं में सम्पूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करने के लिये ऋणधारक को 7 दिनों का समय दिया गया जिसमें विफल होने पर इस संदर्भ में आगे कोई भी सूचना दिये बिना बैंक गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ऋणधारकों ने बकाये राशि के पुनर्भुगतान की अनदेखी की तथा उसमें विफल रहे, अत: बैंक ने प्लेड्जी के रूप में ऋण अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बैंक के प्रति ऋणधारकों की बकाया देयता की वसूली करने के लिये 19 सितंबर 2023 को अथवा उसके बाद इन प्रतिभूतियों की बिक्री / निपटारा करने का निर्णय लिया है। ऋणधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी समय में मार्जिन की आवश्यकता में आगे न्यूनता का निर्माण करने के लिये स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण गिरवी प्रतिभूतियों का मूल्य पुनरू कम होता है तो बैंक अपनी स्वेच्छा से इस संदर्भ में आगे कोई भी सूचना दिये बिना एक (1) कैलेण्डर दिवस के भीतर गिरवी रखी गई प्रतिभूति की बिक्री कर देगा। गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री की रकम को समायोजित करने के उपरांत यदि बैंक की कोई बकाया राशि शेष रहती है तो उसका पुनर्भुगतान करने के लिये बैंक के प्रति ऋणधारक की देयता कायम रहेगी।

郭 . स.	ऋण खाता संख्या	उष्टारकर्ता का नाम	07 सितंबर 2023 को बकाया राशि	बिक्री सूचना की तिथि
1.	XXXX3246	मनीष गर्ग	7,477.56	04-सितंबर-23
2.	XXXX1024	वीना जेरथ 🦟	*1,10,634.23	04-सितंबर-23
3.	XXXX0933	गौरव गंडोत्रा	17,36,309.83	04-सितंबर-23
4.	XXXX6599	निरंजन कुमार	2,06,237.60	04-सितंबर-23
5.	XXXX2165	वीना अग्रवाल	9.99,595.50	04-सितंबर-23
6.	XXXX8278	सुजाता नायक	54,557.30	04-सितंबर-23
7.	XXXX1158	राजीव रंजन	3,48,362.22	04-सितंबर-23
8.	XXXX4235	सुनील भाकुनी	3,06,227.00	04-सितंबर-23
9.	XXXX0327	लविश गोयल	4,08,038,40	04-सितंबर-23
10.	XXXX0457	शिवम गुप्ता	72,077.68	04-सितंबर-23
11,	XXXX3539	गुरनीत कौर चावला	84,811.38	04-सितंबर-23
दिन स्था			एचडीएफसी	हैस्ता / बैंक लिमिटेड

OUR

(U/o 5 mil In The Court Mittal Additio Judge Famil Pramod (

Additional

ऋण वसर

साथ पठि

(समन्स)।

जनसता

12 सितंबर, 2023

Anita CNR NO: PE Next Data फिन हास्स

Publication जयाबाद, यूपी 201001 टेलि. : 0120-4086097 मोबाईलः 7625079222 Pramod Spo @canfinhomes.com, CIN:L85110KA1987PLC008699

Ompal Walm ग सूचना

6, Patil Chav प्रवर्तन अधिनियम २००२ (सरफासी ऐक्ट) की धारा १३(२) के साथ पठित Ghansoli No र (नियमावली) के नियम ३(१) के अधीन

Maharashtraासी ऐक्ट के अधीन और उक्त अधिनियम की घारा 13(2) के साथ पठित नियम 3 के अधीन प्रदत्त In above titled ca की थी, जिसमें यहां नीचे सूचीबद्ध कर्जदारों / गारंटरों (इसमें आगे "उक्त कर्जदार" कहे गए हैं) से, respondent(s) co दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

ordered that determine and are should appear in the नहीं की गई हैं। अत्तएवं कम्पनी पूर्ण सावधानी के साथ यह मांग सूचना प्रकाशित करवा counsel on 12-14 धिनियम के अनुसार, उक्त कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पतों के परिसर पर चस्पा करवा दी गई हैं। https://higho

rict_notice&

idis I Pr Co	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार दावित राशि*	प्रतिमृति आस्ति का वर्णन	एनपीए की तिथि
स्था है) ओए	05.09.2023	▼. 21,17,375/-	प्लॉट नंबर जी—68ए, तीसरी मंजिल, बालाजी एन्क्लेव, गोविंद पुरम, गाजियाबाद 201002 उत्तर प्रदेश, माप 100 वर्ग गज सीमाएँ: उत्तर: संपत्ति संख्या जी—68, दक्षिण: संपत्ति जी—69, पूर्व: संपत्ति जितेंद्र, पश्चिम: सड़क 25 फीट चौड़ा	
ली । त ()	05.09.2023	₹. 13,76,375/-	मकान नंबर 278, गली नंबर 3ए, ओल्ड आर्य / नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201001) सीमाएँ: उत्तर: 8.0 फीट सड़क, दक्षिण: रेलवे ट्रैक, पूर्व: श्री सोहन सिंह का घर, पश्चिम: श्रीमती जीत कौर का घर	29.08.2023

आगे ब्याज के साथ देय।

इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें (1) श्रीमती ह करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु बाध्य होगा । इसके अतिरिक्त कर्जदारों / गारंटरों डीं / डब्ल्यू / प्यम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

श्रीमती हन्ना हस्ता / कैंपस, श्री अर प्राधिकत अधिकारी ै केन फिन होम्स लिमिटेड टॉवर ब्लॉक-घारुहेड जन

अस्य पता फ्लैट नं. 100 के समीप, सेव

जबकि, ओए/ को सूचीबद्ध जबकि, यह

विरुद्ध दर्ज व आदेश यानी आवेदन संलग अधिनियम की A निम्नानुसार नि (i) न्यायालर्य

बताएं/दि 23 PUBLISHED ON AUGUST 28, 2023 FOR THE ATTENTION OF EQUITY जाना चा TOUBRO LIMITED (THE "COMPANY") FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES ON (ii) आवेदक "OFFER") USING THE STOCK EXCHANGE MECHANISM AS PRESCRIBED UNDER THE एवं परिस्र GULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUYBACK REGULATIONS").

LARSEN & TOUBRO

(iii) संपत्तियं अ। पुरापको y committee constituted by the Board to exercise its powers, including powers आपको ऐसी अन् एंसी अन्busand Three Hundred and Thirty Three) equity shares each having a face value

pusand Three Hundred and Thinky Three Pusand Three (iv) आप, saliquity Share ("Buyback Price") payable in cash for an aggregate amount of up to व्यवसाय), excluding Transaction Costs, which represents 14.06 % and 11.97 % of the हित सुनिrves of the Company as per the latest audited standalone and consolidated विनिर्दिष्णाthin the statutory limits of 25% of the aggregate of the fully paid-up Equity

(v) आप, व्यक् standalone and consolidated financial statements of the Company), from और संपोध 12, 2023 as determined by the buyback committee ("Buyback Committee") आय को :r" route as prescribed under the Buyback Regulations(the "Buyback"). Further, के पास of a special resolution, through a postal ballot by remote e-voting on August आपको, आवेर on August 26, 2023, subject to the final buyback price as may be determined in प्रस्तुत करने armined the specific Buyback Price of ₹ 3,000/- (Rupees Three Thousand Only) per का भी निर्देश

आपकी अनुपा आज दिनांक the buy-back through the tender offer, the Board can till one-working day prior umber of securities proposed to be bought back, such that there is no change in निर्गत।

gulations, a public announcement (the "Public Announcement") dated August cial Express, an English national daily, and Jansatta, a Hindi national daily, and alic Announcement, the Buyback Price was identified as ₹ 3,000/- (Rupee Three Sumity Shares proposed to be bought back was up to 3,33,33,333 (Three Crore Thirty